

1262

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2010

आ.सं. 1

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक 12-8-2010

क्रमांक एफ 10-20/2010/16: असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (क्र. 33 सन 2008) की धारा 14 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 कहलाएंगे।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (क्र. 33 सन 2008)
(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा बोर्ड;
(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, बोर्ड का अध्यक्ष;
(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बोर्ड का सदस्य;
(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;
(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।
3. सदस्यों की पदावधि :- (1) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए पद धारण करेगा।
(2) धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (तीन) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य तब बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विधानसभा, जिसके द्वारा वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था, का सदस्य नहीं रह जाता।
(3) धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (एक), (दो) एवं (चार) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस प्रवर्ग का जिससे वह इस प्रकार नाम निर्देशित किया गया था, का प्रतिनिधित्व नहीं



रायपुर 17 अगस्त 2010

.....2.....

परन्तु उप-खंड (एक) के अधीन नाम निर्देशित सात व्यक्तियों में एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रवर्ग से प्रतिनिधित्व करने के लिए होगा।

(4) कोई सदस्य पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा।

4. त्यागपत्र :- (1) बोर्ड का कोई सदस्य जो पदेन सदस्य नहीं है, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखित में पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उस तारीख से जिसको उसका त्यागपत्र स्वीकार होता है या त्यागपत्र की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के अवसान पर, जो भी पूर्वतर हो, रिक्त होगा।

(3) सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्यागपत्र स्वीकार करने पर, बोर्ड को उसके अगले अधिवेशन में रिपोर्ट करेगा।

5. पते में परिवर्तन :- यदि कोई सदस्य अपने पते में परिवर्तन करता है तो वह अपना नया पता बोर्ड के सदस्य-सचिव को अधिसूचित करेगा जो तदुपरांत उसका नया पता शासकीय अभिलेख में दर्ज करेगा :

परन्तु यदि सदस्य अपना नया पता अधिसूचित करने में असफल रहता है तो शासकीय अभिलेख में पता सभी प्रयोजनों के लिए सदस्य का सही पता समझा जाएगा।

6. रिक्त स्थानों को भरने की रीति :- जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना है तो अध्यक्ष, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकेगा और इस प्रकार नाम निर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि तक जिसके स्थान पर वह नाम निर्देशित किया जाता है, पद धारण करेगा।

7. सदस्यों के भत्ते:- (1) बोर्ड के किसी शासकीय सदस्य का यात्रा भत्ता शासकीय कर्तव्य पर उसके द्वारा निर्वहन की गई यात्रा के लिए उसको लागू नियमों द्वारा शासित किया जाएगा और उसके वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(2) बोर्ड के गैर शासकीय सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय है और दैनिक भत्ते की गणना उनके संबंधित स्थानों में राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय अधिकतम दर पर की जाएगी।

....3....

कारबार का निराकरण :- ऐसा प्रत्येक विषय जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है, बोर्ड के किसी अधिवेशन में या यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे कि प्रत्येक सदस्य को राय जानने के लिए आवश्यक कागजात भेजकर विचार किया जाएगा और उस विषय को बहुमत के विनिश्चय के अनुसार निराकृत किया जाएगा :

परन्तु जहाँ किसी विषय पर बहुमत नहीं है और बोर्ड के सदस्य समान रूप से विभाजित है, अध्यक्ष का मत द्वितीय और निर्णायक होगा।

स्पष्टीकरण :- उपरोक्त परंतुक के प्रयोजन के लिए शब्द "अध्यक्ष" के अंतर्गत अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन नाम निर्देशित या चुना गया कोई व्यक्ति भी सम्मिलित होगा

9. अधिवेशन :- (1) बोर्ड का अधिवेशन ऐसे स्थानों और ऐसे समयों पर होगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए और यह अधिवेशन चार मास में कम से कम एक बार होगा।
- (2) अध्यक्ष बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित हो और उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड के किसी सदस्य को अपने स्थान पर ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नाम निर्देशित कर सकेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नाम निर्देशित किये जाने के अभाव में ऐसे अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्य, अपने बीच में से किसी सदस्य को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकेंगे।
10. अधिवेशन की सूचना और कारबार की सूची-(1) बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तावित अधिवेशन की सामान्यतया दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी :
- परन्तु अध्यक्ष यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है तो ऐसे अधिवेशन के लिए एक मास से अनधिक की लंबी कालावधि की सूचना दे सकेगा।
- (2) ऐसे कारबार को छोड़कर जो बोर्ड के अधिवेशन के लिए कारबार की सूची में सम्मिलित है अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना अधिवेशन में विचार नहीं किया जाएगा।
- (3) अध्यक्ष, अत्यावश्यकता की दशा में, विचार - विमर्श की विषयवस्तु और अत्यावश्यकता के कारणों के बारे में सदस्यों को अग्रिम सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा।

Handwritten signature

....4....

गणपूर्ति :- (1) बोर्ड के किसी अधिवेशन में तब तक कोई कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस अधिवेशन में कम से कम छः सदस्य उपस्थित न हो जिसमें राज्य विधानसभा का कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा :

परन्तु यदि किसी अधिवेशन में छः से कम सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष, उपस्थित सदस्यों को सूचित करके और अन्य सदस्यों को सूचना देकर स्थागित अधिवेशन में कारबार का निपटारा करने के लिए किसी अन्य तारीख के लिए अधिवेशन को स्थागित कर सकेगा, चाहे गणपूर्ति हो या न हो और तदुपरांत उसके लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह स्थागित अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या को ध्यान में लाए बिना कारबार का निपटारा करे।


(2) राज्य सरकार पदेन सदस्यों से गिन्न, किसी सदस्य को बोर्ड के अधिवेशन में भाग लेने से विवर्जित कर सकेगी यदि-

(क) वह अध्यक्ष को लिखित सूचना दिए बिना और उसकी सहमति के बिना बोर्ड के तीन लगातार अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, या

(ख) राज्य सरकार की दृष्टि, में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जिसके लिए वह बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित है।

12. असंगठित कर्मकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति :- अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्रारूप-1 में, जिला प्रशासन को किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(के.जी. कुंजाम)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

1+

**Government of Chhattisgarh
Labour Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Date: 12 /08/2010

No. F 10- 20 /2010/16 : In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 14 of the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (No. 33 of 2008), the State Government hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Unorganised Workers' Social Security Rules, 2010.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means The Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (No.33 of 2008);
 - (b) "Board" means the Chhattisgarh Social Security Board constituted under Section 6 of the Act;
 - (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;
 - (d) "Member" means a member of the Board;
 - (e) "Section" means a section of the Act;(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Term of office of Members.**- (1) A member, other than an ex-officio member, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination.
 - (2) A member nominated under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-section (2) of Section 6 shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the Legislative Assembly by which he was so elected.
 - (3) A member nominated under sub-clause (i), (ii) and (iv) of clause (c) of sub-section (2) of Section 6 shall cease to be a member of the Board if he ceases to represent the category of interest from which he was so nominated:

Kate

Provided that out of seven persons nominated under sub-clause (i), one member each from the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the Minorities and Women shall be represented.

(4) A member shall be eligible for re-nomination.

4. **Resignation.**- (1) A member of the Board, not being an ex officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the Chairperson.

(2) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

(3) The power to accept the resignation of a member shall vest in the Chairperson who, on accepting the resignation, shall report to the Board at its next meeting.

5. **Change of Address.**- If a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records:

Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

6. **Manner of filling vacancies.**- When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government and on receipt of such report, the State Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

7. **Allowances of members.**- (1) The travelling allowance of an official member of the Board shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(2) The non-official members of the Board shall be paid travelling allowance for attending the meetings of the Board at such rates as are admissible to a Class-I Officer of the State Government and daily allowances shall be calculated at the maximum rate admissible to Class-I Officers of the State Government in their respective places.

Handwritten signature

---3---

8. **Disposal of business.**- Every matter which the Board is required to take into consideration shall be considered at a meeting of the Board, or if the Chairperson so directs, by sending the necessary papers to every member for opinion, and the matter shall be disposed of in accordance with the decision of the majority:

Provided that where there is no opinion of majority on a matter and the members of the Board are equally divided, the Chairperson shall have a second or a casting vote.

Explanation:- The expression "Chairperson" for the purpose of the above proviso shall include a member nominated or chosen under sub-rule (2) of rule 9 to preside over a meeting.

9. **Meetings.**- (1) The Board shall meet at such places and at such times as may be decided by the Chairperson and it shall meet atleast once in four months.

(2) The Chairperson shall preside over every meeting of the Board in which he is present and in his absence he may nominate a member of the Board to preside over such a meeting in his place and in the absence of such nomination by the Chairperson, the members of the Board present in such meeting may choose from amongst themselves a member to preside over the meeting.

10. **Notice of meetings and list of business.**- (1) Ordinarily, two weeks notice shall be given to the members of the Board of a proposed meeting:

Provided that the Chairperson, if he is satisfied that it is expedient so to do, may give notice of longer period not exceeding one month for such meeting.

(2) No business except which is included in the list of business for a meeting of the Board shall be considered at the meeting without the permission of the Chairperson.

(3) The Chairperson may at any time call a special meeting of the Board in case of urgency, after informing the members in advance about the subject-matter of discussion and the reasons of urgency.

11. **Quorum.**- (1) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless at least six members are present in that meeting which shall include at least one member of State Legislative Assembly:

---4---


Provided that if at a meeting, less than six members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing the members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

(2) The State Government may debar any member, other than ex-officio members, from taking part in the Meeting of the Board, if-

- (a) he absents himself from three consecutive meetings of the Board without written information to and consent of the Chairperson, or
- (b) in the view of the State Government, such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on the Board.

12. Manner of making application for registration of unorganised worker.-The application referred to in sub-section (2) of Section 10 of the Act shall be made in Form-I, to the District Administration.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(K.D. Kunjam)
Dy. Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Labour Department

प्रारूप-1

(नियम ~~के~~¹² देखें)

असंगठित कर्मकार का नाम :-

पिता/पति का नाम :-

व्यवसाय:-

वर्तमान पता :-

स्थायी पता :-

आश्रित :-

(क) पिता:

(ख) माता:

(ग) आश्रित बच्चों:

(घ) अन्य :

FORM-I
(See rule 12)

Name of the unorganised worker: _____

Father's/Husband's name : _____

Occupation : _____

Present Address : _____

: _____

: _____

Permanent Address : _____

: _____

: _____

Dependents : _____

(a) Father: _____

(b) Mother: _____

(c) Dependent children: _____

(d) Others: _____